



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]  
No. 121]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2008/माघ 9, 1929  
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2008/MAGHA 9, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2008

का.आ. 162(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), छत्तीसगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ कहा गया है) का गठन करती है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :-

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. श्री ए. पी. सिंह,<br>सेवानिवृत्त महाप्रबंधक,<br>भिलाई स्टील प्लांट, 32 ओल्ड नेहरू नगर,<br>भिलाई-490020                                 | —अध्यक्ष,<br>परियोजना प्रबंधक |
| 2. डॉ. एम. एल. नायक,<br>पूर्व महानिदेशक,<br>छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी,<br>रायपुर, गांव नवापाली<br>जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ | —सदस्य,<br>जीवन विज्ञान       |
| 3. श्री के. सुब्रमण्यम<br>सदस्य-सचिव<br>छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड,<br>नानक निवास, सिविल लाइंस,<br>रायपुर, छत्तीसगढ़                | —सदस्य सचिव                   |

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगी।

3. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई है।

4. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ इस आदेश में छत्तीसगढ़ सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी।

5. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अधिकरण को प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संचारिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास सुविधा, परिवहन, और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

1. डॉ. हरेन्द्र कुमार,  
निदेशक,  
रायपुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी  
मन्दिर हसौद, रायपुर-492101  
—अध्यक्ष,  
जोखिम आकलन
2. श्री अनंत प्रभाकर,  
राजीमवाला, रीडर,  
नेशनल इंस्टीट्यूट आफ  
टेक्नोलोजी, रायपुर, क्वाटर नं. ई-47, रायपुर  
छत्तीसगढ़-492001  
—सदस्य,  
सैक्टरल एक्सपर्ट  
इन मेटालर्जी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी,  
संयुक्त निदेशक (जियोलाजी)  
जियोलाजी एण्ड माइनिंग निदेशालय,  
मिनरल रिसोर्स विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार,  
सोनाखान भवन, पोस्ट रविग्राम, रायपुर  
छत्तीसगढ़-492006  
—सदस्य,  
सैक्टरल एक्सपर्ट  
माइनिंग
4. डॉ. पीयूष कान्त पण्डेय  
प्रोफसर एण्ड कोऑर्डिनेटर,  
सेन्टर फॉर एन्वायरमेंटल साइंस एण्ड इंजीनियरिंग,  
इजीनियरिंग केमिस्ट्री विभाग,  
भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी,  
दुर्ग, छत्तीसगढ़-491002  
—सदस्य, पर्यावरण  
गुणवत्ता
5. श्री अशोक मसीह, भा.व.से. (सेवा नि.)  
अतिरिक्त प्रधान, मुख्य वन संरक्षक,  
मध्य प्रदेश, बी/90, वी आई पी एस्टेट,  
वी आई पी क्लब के पास,  
पो.आ. शंकर नगर, रायपुर,  
छत्तीसगढ़, पिन-492007  
—सदस्य, वानिकी एवं  
वन्यजीव
6. श्री वी. एन. सिंह,  
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर  
—सदस्य  
पावर सेक्टर में  
सेक्टरल एक्सपर्ट
7. श्री श्याम सुन्दर बजाज,  
विशेष सचिव,  
डिपार्टमेंट आफ हाउसिंग एण्ड  
एनवायरनमेंट,  
छत्तीसगढ़ सरकार, ई-6  
बॉटल हाउस के पास, शंकर नगर,  
रायपुर, छत्तीसगढ़  
—सचिव

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इन अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा।

8. एस ई ए सी, छत्तीसगढ़ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी हैं।

9. एस ई ए सी, छत्तीसगढ़ सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी। अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिमावी होगा।

10 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, अधिकरण को एस ई ए सी, छत्तीसगढ़ के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगा और यह सभी वित्तीय और संचारिक सहायता जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी। एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/41/2007-आई ए-II(1)]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2008

**S.O. 162(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Authority, Chhattisgarh) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member Secretary nominated by the State Government of Chhattisgarh as under:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Sh. A.P. Singh,<br/>Retd. GM, Bhilai Steel Plant<br/>32, Old Nehru Nagar, Bhilai-490020<br/>Chhattisgarh</p>  | <p>—Chairman,<br/>Project Management</p> |
| <p>2. Dr. M.L. Naik,<br/>Ex- Director General,<br/>Chhattisgarh Council of Science &amp; Technology,<br/>Raipur, Vill. Nawapali, Distt.,<br/>Raigarh, Chhattisgarh.</p> | <p>—Member,<br/>Life Sciences</p>        |
| <p>3. Sh. K. Subramaniam,<br/>Member Secretary<br/>Chhattisgarh Environment Conservation Board,<br/>Nanak Niwas, Civil Lines,<br/>Raipur, Chhattisgarh</p>              | <p>—Member Secretary</p>                 |

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Chhattisgarh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Chhattisgarh shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Chhattisgarh in this order.

5. The State Government of Chhattisgarh shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting Fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Chhattisgarh as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Chhattisgarh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Chhattisgarh (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <p>1. Dr. Harendra Kumar,<br/>Director,<br/>Raipur Institute of Technology,<br/>Mandir Hasaud,<br/>Raipur-492 101</p> | <p>—Chairman,<br/>Risk Assessment</p> |
|---|---------------------------------------|

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 2. | Sh. Anant Prabhakar, Rajimwale,<br>Reader,<br>National Institute of Technology,<br>Raipur, Qr. No. E-47, Raipur,<br>Chhattisgarh Pin-492001.  | —Member,<br>Sectoral Expert in<br>Metallurgy  |
| 3. | Sh. Sailendra Kumar Trivedi,<br>Joint Director (Geology)<br>Directorate of Geology and Mining,<br>Mineral Resources Deptt.,<br>Govt. of Chhattisgarh, Sonakhan Bhavan,<br>Post Ravigram, Raipur,<br>Chhattisgarh- 492 006 | —Member,<br>Sectoral Expert Mining            |
| 4. | Dr. Piyush Kant Pandey,<br>Professor and Co-ordinator,<br>Centre for Environmental Science & Engineering,<br>Deptt. of Engineering Chemistry,<br>Bhilai Institute of Technology, Durg,<br>Chhattisgarh-491 002.           | —Member,<br>Environment Quality               |
| 5. | Sh. Ashok Masih, IFS (Retd.),<br>Addl. Principal Chief Conservator of Forests,<br>Madhya Pradesh,<br>B/90, VIP Estate, Near VIP Club,<br>P.O. Shankar Nagar, Raipur,<br>Chhattisgarh. Pin-492007.                         | —Member,<br>Forestry and Wildlife             |
| 6. | Sh. V.N. Singh,<br>Govt. Engineering College,<br>Raipur   | —Member<br>Sectoral Expert in Power<br>Sector |
| 7. | Sh. Shyam Sunder Bajaj,<br>Special Secretary,<br>Department of Housing and Environment,<br>Govt. of Chhattisgarh,<br>E-6, Near Bottle House, Shankar Nagar,<br>Raipur, Chhattisgarh.                                      | —Secretary                                    |

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Chhattisgarh shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Chhattisgarh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Chhattisgarh shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Chhattisgarh shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Chhattisgarh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting Fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Chhattisgarh as per State rules.

[F. No. J-11013/41/2007-IA.II (I)]

NALINI BHAT, Scientist 'G'